

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2013—फाल्गुन 17, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

संशोधित अधिसूचना

क्र. 3841-2012-जियोसां-जनगणना-2011-एन.पी.आर.—इस कार्यालय द्वारा जिले के अन्तर्गत आने वाली समस्त तहसीलों/नगरों/ग्राम व वार्ड स्तर पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर हेतु अधिसूचित पदाधिकारियों को उनके समक्ष दर्शाये पदों के अनुरूप नामित कर अधिसूचना क्रमांक 3661/2012/जियोसां/जनगणना 2011/एन.पी.आर., नरसिंहपुर दिनांक 3-12-2012 हिन्दी भाषा में जारी की गई थी.

जनगणना निदेशालय मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक आई 11011/43/2000 (एनपीआर)डीसीओ/2802, दिनांक 17 दिसम्बर 2012 में दिये गये निर्देशानुसार इस कार्यालय द्वारा उक्त जारी अधिसूचना की हिन्दी प्रति के क्रमांक-12 संबंधित वार्ड के कालम (5) में लिखे गये विवरण के स्थान पर कालम (6) में लिखे गये विवरण अनुसार निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

| क्रम संख्या | प्रशासनिक इकाई | पदनाम | नियुक्त किये जाने वाला पदनाम | लिखा गया प्रशासनिक क्षेत्र | संशोधन उपरान्त लिखा जाने संबंधी प्रशासनिक क्षेत्र |
|-------------|----------------|--|------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 12 | संबंधित वार्ड | राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/कर संग्राहक. | स्थानीय रजिस्ट्रार. | संबंधित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र. | सांवाधिक नगरों (नगरपालिका/ नगर परिषद्) के अन्तर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. |

इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 3661/2012/जियोसां/जनगणना 2011/एन.पी.आर., नरसिंहपुर दिनांक 3 दिसम्बर 2012 की शेष प्रविष्टिया पढ़ी जावे.

स्थान-नरसिंहपुर

दिनांक 27 दिसम्बर 2012.

संजीव सिंह, जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.) एवं कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी), जिला गुना, मध्यप्रदेश

गुना, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र. जनगणना-2013-719.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. में पदनाम एवं कालम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है:—

| क्रम संख्या (1) | प्रशासनिक इकाई (2) | पदनाम (3) | नियुक्त किया जाने वाला पदनाम (4) | प्रशासनिक क्षेत्र (5) |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | तहसील गुना | तहसीलदार | उप जिला रजिस्ट्रार, गुना तहसील. | तहसील गुना के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर). |
| 2 | तहसील राधौगढ़ | तहसीलदार | उप जिला रजिस्ट्रार, राधौगढ़ तहसील. | तहसील राधौगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर). |
| 3 | तहसील कुंभराज | तहसीलदार | उप जिला रजिस्ट्रार, कुंभराज तहसील. | तहसील कुंभराज के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर). |
| 4 | तहसील चांचौड़ा | तहसीलदार | उप जिला रजिस्ट्रार, चांचौड़ा तहसील. | तहसील चांचौड़ा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर). |
| 5 | तहसील बमौरी | तहसीलदार | उप जिला रजिस्ट्रार, बमौरी तहसील. | तहसील बमौरी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर). |
| 6 | तहसील आरोन | तहसीलदार | उप जिला रजिस्ट्रार, आरोन तहसील. | तहसील आरोन के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर). |
| 7 | तहसील मधुसूदनगढ़ | तहसीलदार | उप जिला रजिस्ट्रार, मधुसूदनगढ़ तहसील. | तहसील मधुसूदनगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर). |
| 8 | नगरपालिका गुना | मुख्य नगरपालिका अधिकारी. | उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका गुना. | नगरपालिका के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. |
| 9 | नगरपालिका राधौगढ़ | मुख्य नगरपालिका अधिकारी. | उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका राधौगढ़. | नगरपालिका के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. |
| 10 | नगर पंचायत, आरोन. | मुख्य नगरपालिका अधिकारी. | उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, आरोन. | नगर पंचायत, आरोन के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. |
| 11 | नगर पंचायत, चांचौड़ा. | मुख्य नगरपालिका अधिकारी. | उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, चांचौड़ा. | नगर पंचायत, चांचौड़ा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. |
| 12 | नगर पंचायत, कुंभराज. | मुख्य नगरपालिका अधिकारी. | उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, कुंभराज. | नगर पंचायत, कुंभराज के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---------------|--|--------------------|--|
| 13 | संबंधित ग्राम | पटवारी | स्थानीय रजिस्ट्रार | संबंधित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र. |
| 14 | संबंधित वार्ड | राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक निरीक्षक/ कर संग्राहक. | स्थानीय रजिस्ट्रार | संबंधित नगरों (नगर निगम/नगरपालिका/छावनी बोर्ड/नगर परिषद्) के अन्तर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. |

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पढ़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान-गुना

दिनांक 21 फरवरी 2013.

संदीप यादव, कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).

Guna, the 21st February 2013

No. Census-2013-721.—In exercise of the powers conferred *vide* GAD order No. F-10-1-2012-2-SA (3), dated 16th February 2012 published in Madhya Pradesh Gazette, dated 17th February 2012 & under rules, 5, 16 & 18 of the Citizenship Act, following officers are appointed as the Registers for preparation on National Population Register with NPR designations mentioned in Col. (4) it take or aid in or supervise the NPR operations within the Administrative area specified against each of them in Col. No. (5) of the Schedule:—

| Sl. No. | Administrative Unit | Designation | To be appointed as | Jurisdiction |
|---------|------------------------|-------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tehsil Guna | Tehsildar | Sub-District Registrar, Tehsil Guna. | Entire Tehsil Guna (excluding urban areas). |
| 2 | Tehsil Aron | Tehsildar | Sub-District Registrar, Tehsil Aron. | Entire Tehsil Aron (excluding urban areas). |
| 3 | Tehsil Raghogarh | Tehsildar | Sub-District Registrar, Tehsil Raghogarh. | Entire Tehsil Raghogarh (excluding urban areas). |
| 4 | Tehsil Kumbhraj | Tehsildar | Sub-District Registrar, Tehsil Kumbhraj. | Entire Tehsil Kumbhraj (excluding urban areas). |
| 5 | Tehsil Madu-sudangarh. | Tehsildar | Sub-District Registrar, Tehsil Madusudangarh. | Entire Tehsil Madusudangarh (excluding urban areas). |
| 6 | Tahsil Bamori | Tehsildar | Sub-District Registrar, Tehsil Bamori. | Entire Tehsil Bamori (excluding urban areas). |
| 7 | Tehsil Chachora | Tehsildar | Sub-District Registrar, Tehsil Chachora. | Entire Tehsil Chachora (excluding urban areas). |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---------------------------|---|--|---|
| 8 | Municipality Guna | Chief Municipal Officer. | Sub-District Registrar, Municipality Guna. | Entire urban area of Guna Municipality. |
| 9 | Municipality Raghogarh. | Chief Municipal Officer. | Sub-District Registrar, Municipality Raghogarh. | Entire urban area of Raghogarh Municipality. |
| 10 | Nagar Panchayat Aron. | Chief Municipal Officer. | Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Aron. | Entire urban area of Aron Nagar Panchayat. |
| 11 | Nagar Panchayat Chachora. | Chief Municipal Officer. | Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Chachora. | Entire urban area of Chachora Nagar Panchayat. |
| 12 | Nagar Panchayat Kumbhraj. | Chief Municipal Officer. | Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Kumbhraj. | Entire urban area of Kumbhraj Nagar Panchayat. |
| 13 | Respective Village (s). | Patwari | Local Registrar | Entire urban area of respective Village/ Census Town /Out Growth. |
| 14 | Respective Ward(s). | Revenue Inspector/ Health Inspector/ Sanitary Inspector/ Asstt. Revenue Inspector/ Tax Collector. | Local Registrar | Entire urban area of respective wards of Statutory Towns (Municipal Corporations/Municipalities/ Cantonment Board/Nagar Panchayat). |

The Sub-District Registrar to appoint Local Registrars at their level as per Govt. No. F 10-1-2013-2-A(3), dated 16th February 2012.

Place : Guna
Dated : 21st February 2013

SANDEEP YADAV, Collector & District Registrar.